

डीआरडीओ के दल ने देखा योग, आयुर्वेद और अध्यात्म का संगम

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) दिल्ली की एक उच्च स्तरीय दल देवसंस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचा, यहां उन्होंने आयुर्वेद एवं योग के संबंध में विवि द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों से अवगत हुए.

दल के नेतृत्व कर रहे डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल डॉ. मानस मण्डल ने कहा कि देसंवि वि योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म को जन-जन तक पहुंचाने में जो सार्थक पहल कर रहा है, यह प्रशंसनीय है. उन्होंने भविष्य में योग के विभिन्न पक्षों पर चलाये जाने वाले कार्य योजनाओं पर चर्चा की.

प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने दल को देसंवि वि में चल रहे योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के कार्यक्रम एवं किये जा रहे शोध कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही योग से संबंधित देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों, कार्पोरेट जगत सहित युवा वर्ग के बीच चलाए जा रहे योग शिविर के माध्यम से जागरूकता पक्ष को भी उजागर किया.

डॉ. पण्ड्या के अनुसार जहां एक ओर आयुष विभाग के साथ मिलकर आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने की योजना बनी है तो वहीं दूसरी ओर घर-घर तक योग व भारतीय संस्कृति को पहुंचाने के लिए देसंवि वि के हजारों युवा व गायत्री परिवार के लाखों नर-नारी जुटे हुए हैं.

डीआरडीओ के सचिव डॉ. एस. क्रिस्टफर ने देसंवि वि के साथ मिलकर योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में साथ कार्य करने की सहमति जताई. उन्होंने देसंवि वि के योग की राष्ट्रीय उपलब्धियों को सराहनीय बताया.

प्रतिकुलपति ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्राचीन पद्धतियों को लेकर वह हमेशा शोध संबंधी कार्यों को साथ मिलकर करते रहेंगे. इस अवसर पर डीआरडीओ के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं देसंवि वि के योग व आयुर्वेद विभाग के प्रवक्तागण उपस्थित थे.